

COMMITTED TO THE EARTH

www.ruchirapapers.com

RPL/CS/BSE/NSE/2022-23/

09.11.2022

To

The General Manager, Department of Corporate Service, BSE Limited, P. J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 023 Scrip Code: **532785**

National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Plot No. C/1 G. Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051 Trading Symbol: RUCHIRA EQ

Dear Sir/Madam,

SUB: Newspaper Publication of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September 2022.

Please find enclosed herewith copies of the public advertisement released in 'Financial Express' (all editions) and in 'Jansatta' (vernacular) on 09.11.2022, in respect of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2022.

This is for your information, records and action please.

Thanking You, **For Ruchira Papers Limited**

Iqbal Singh Company Secretary and Compliance Officer A36847

Encl: As above

RUCHIRA PAPERS LIMITED

CIN-L21012HP1980PLC004336

REGD. OFFICE & WORKS Trilokpur Road, Kala Amb

Sirmaur

Himachal Pradesh - 173030

T: +91-80-53800897 / 53101892 T: +91-1732-233799/233140

E: info@ruchirapapers.com

ADMIN. OFFICE

21-22, New Professors Colony Yamuna Nagar Haryana - 135001

E: rplynr@ruchirapapers.com

DELHI OFFICE

M-146, 2nd Floor Greater Kailash Part 2 New Delhi - 110048

T: +91-11-29226638/29226639 rpldelhi@ruchirapapers.com

FINANCIAL EXPRESS

Lending startup ftcash receives **NBFC licence**

LENDING STAR-**TUPFTCASH** on Tuesday said it has received licence from the RBI to set up a non-banking financial company.ftcash aims to disburse loans worth ₹100 crore in the current fiscal.

SBFC Finance files draft papers for ₹1,600-cr IPO SBFC FINANCE, A non-

banking financial company, filed preliminary papers with Sebi to raise up to ₹1,600 crore through an IPO.

Keystone Realtors' ₹635-crore IPO to open on Nov 14

KEYSTONE REALTORS, WHICH sells properties

under the 'Rustomjee' brand, will hit the capital market on November 14 to raise ₹635 crore via IPO. Rate hikes may

not hit home loan repayments: Icra THE ONGOING RATE

hikes are unlikely to hit repayments by home loan borrowers despite a rise in the monthly instalments, a rating agency Icra said.

SBI report: Banks not pricing their risks adequately

AMID LIQUID-

WOES, decadal high credit growth and deposit growth falling way behind, an SBI report warned that banks are not adequately pricing their risks.

No.

PSBs' operating profits get fee income boost in Q2FY23

SHASHANK DIDMISHE Mumbai, November 8

A CLUTCH OF public sector banks (PSBs) saw higher operating profits in the second quarter of the current financial year as the treasury losses were more than offset by fee income. Major PSBs had seen a loss at an operating level in the previous quarter due to loss on investments. State Bank of India (SBI)

reported a 17% jump in preprovisioning operating profit (PPOP) while Bank of Baroda (BoB) saw a muted 6% rise. Other banks such as Union Bank of India, Punjab National Bank (PNB), Canara Bank and Bank of India saw their operating profits rising in the range of 8-39%. PNB saw the highest rise at 39% in its PPOP. The increase in SBI's operat-

ing profit was led by a 10% y-oy rise in fee income to ₹5,942 crore and forex income. The lender saw a muted increase in its treasury income at 7% to ₹457 crore in Q2FY23. On a sequential basis, the bank had reported a loss of ₹6,549 crore. SBI's fee-based income rose on higher loan processing charges, cross selling and commissions on government business.

The bank had an opportunity to book mark-to-mark gain REPORT CARD %, y-o-y growth/decline

| | SBI | PNB | ВоВ | UBI | Bol | Canara | | |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|
| Net interest income | 13 | 30 | 35 | 22 | 44 | 19 | | |
| Other income | 8 | -13 | -49 | -18 | -34 | 13 | | |
| Pre-provision profit | 17 | 39 | 6.4 | 8 | 26 | 23 | | |
| Provisions | -26 | 51 | -41 | 4 | 114 | 3 | | |
| PAT | 74 | -63 | 59 | 21 | -9 | 89 | | |
| NIM (in bps) | 5 | 61 | 48 | 20 | 62 | 11 | | |
| Gross NPA (in bps) | -138 | -315 | -280 | -419 | -349 | -205 | | |
| Net NPA (in bps) | -72 | -169 | -167 | -197 | -87 | -102 | | |
| Index/ \$\frac{22\%}{\infty} \frac{5\%}{\infty} \frac{6\%}{\infty} \frac{1}{\infty} \frac{1} | | | | | | | | |
| Nov 8, 2021 | ,016.45 | 2 | 20,198.90 | 39 | 39,438.25 | | | |
| Nov 7, 2022 | 3 | ,690.15 | 2 | 21,218.90 | 41 | ,686.70 | | |

in Q2, SBI chairman Dinesh Khara said in an analyst call, adding that the lender consciously decided not to book it, keeping it as reserve for a rainy day.

Source: BSE filings; NSE

However, a treasury loss of ₹435 crore set back BoB's noninterest income despite a 12% y-o-yrise in fee income. Its treasury loss narrowed on a sequential basis from ₹588 crore. A lower recovery from technical write-offs also impacted its non-interest income.

The lenders also saw a significant improvements in their net profits, with SBI posting high-

UBI: Union Bank of India est-ever quarterly profit of over ₹13,265 crore. BoB, too, saw a smart 59%y-o-yrise in its profit

for Q2FY23. Two exceptions to

this were BoI and PNB, who saw

their provisions increase result-

ing in a fall in the bottomline by

9% and 63%, respectively. The

rise in provisions was due to

higher provisions for bad loans. Union finance minister Nirmala Sitharaman on Monday said that the 12 PSBs reported a 50% jump in combined net profit to ₹25,685 crore in Q2. On Monday, shares of SBI and

BoB rallied to their all-time

highs following their results. Given that almost all PSBs

are doing well on every parameter, there are questions on sustainability of this growth. As per the current loan book of SBI, in case there is any slowdown, it will be mainly due to the overall growth momentum slowing down rather than it being a asset quality or credit cost problem, Kotak Institutional Equities said in a report.

On the profitability front,

SBI posted a muted 5 basis point expansion in its net interest margin (NIM) compared to its peers. However, the lender's margins are likely to sustain at these levels as reporate hikes are implemented, brokerage Macquire Research said in a report. The bank has also guided that full transmission of lending rates will happen in the second half of FY23. There is a high probability that SBI's lower credit costs can offset the pressure that could emerge from NIM compression, slower fee income growth or a marginally higher cost structure, Kotak Institutional Equities said. Same cannot be said in case of BoB, according to Macquire as NIMs will come down as deposit costs start catching up with a lag. To be fair, the BoB had beat its NIM estimate by 20 bps in Q2FY23.

Employees' strike may hit services on Nov 19: BoB

FE BUREAU Mumbai, November 8

BANK OF BARODA (BoB) on Tuesday said that the functioning of its branches and offices might get affected due to the proposed employee union strike on November 19. The lender is taking necessary steps for smooth functioning, it said in a regulatory filing.

BoB said that the general secretary of All India Bank Employees'Association (AIBEA) has served a notice of strike to Indian Banks' Association.

CH Venkatachalam, general secretary, AIBEA, said the call for a strike is over the alleged attacks on unions in different banks and violation of various norms by the lenders. AIBEA observed that what is normally an isolated problem, has been repeating in several banks.

"There are no financial demands, but the strike is in protest of rising attacks on the

unions," he said. While it is a strike called only by AIBEA, all other unions are supporting the entity, he added. The banking sector has around nine unions, including AIBEA, All India Bank Officers' Association, National Confederation of Bank Employees, among others.

Non-life insurers' gross direct premium rises 15.51% in Oct

The non-life

insurance sector

saw growth of

over 15% after

two months

MITHUN DASGUPTA Kolkata, November 8

COLLECTIVE GROSS DIRECT premium underwritten for non-life insurance companies grew 15.51% year-on-year to ₹20,423.38 crore in October from ₹17,681.36 crore a year ago, data from the General Insurance Council show.

Notably, the nonlife insurance sector witnessed growth of over 15% after two months. Gross direct

premium underwritten grew by a marginal 2.66% y-o-y in September 11.91% in August. In July, the sector had posted a 16.05% y-o-y growth.

During the first seven months of this fiscal, gross direct premium underwritten for 31 nonlife insurers rose 15.34% y-o-y to ₹1.46 trillion against ₹1.26 trillion a year ago. Up to October, premium underwritten for 24 general insurance companies grew15.39%y-o-yto₹1.23tril-

lion, while for five stand-alone

private insurers, it increased by

25.78% to ₹13,599.90 crore.

In October, premium underwritten by general insurers wit-

nessed a rise of 17.50% y-o-y to ₹18,391 crore against ₹15,652 crore a year ago. For stand-alone private insurers, it rose 20.33%

y-o-y to ₹1,938 crore from ₹1,611 crore in October 2021. PSU insurer New India Assurance, the market leader in the non-life insurance

space, saw a marginal 2.87% yo-y rise in its premium to ₹2,783.61 crore in October, while for Oriental

Insurance Company, it fell 3.23% y-o-y to ₹1,096.46 crore. Premiums for United India Insurance and National

Insurance Company rose 19.67% and 117.12% y-o-y to ₹1,395.69 crore and ₹1,958.22 crore,

respectively. Among major general insurers in the private sector, for ICICI Lombard General Insurance premium in October grew 22.19% y-o-y to ₹2,047.12 crore, while for HDFC Ergo, it rose 5.02% to ₹1,298.19 crore. Bajaj Allianz General Insurance and Tata AIG General Insurance witnessed 24.54% and 30.62%

y-o-yjump in their premiums in

October to ₹1,230.01 crore and

₹1,200.34 crore, respectively.

Rivaara Labs raises its first round of equity capital from Amicus, Kotak

FE BUREAU Mumbai, November 8

RIVAARA LABS, A testing services and R&D-focused molecular diagnostics company, raised its first institutional round of equity led by Amicus Capital and Kotak Investment Advisors. Bharat Daftary, who founded the company in 2019,

also participated in the round.

According to industry sources,

the fundraising has been to the

tune of ₹50-60 crore.

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or

(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/

Total Income from Operations

Paid up Equity Share Capital

Securities Premium Account

13 Earnings Per Share (of Rs. 2/- each)

Total Income from Operations

Extraordinary items)

Extraordinary items)

Extraordinary items)

6 Paid up Equity Share Capital

8 Securities Premium Account

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

10 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt

13 Earnings Per Share (of Rs. 2/- each)

11 Outstanding Redeemable Preference Shares

Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

(after tax)]

Net worth

12 Debt Equity Ratio

Notes:

Place: Chennai

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt

Outstanding Redeemable Preference Shares

Basic (Not annualised for the quarter and half year)

2. Diluted (Not annualised for the guarter and half year)

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/

Basic (Not annualised for the quarter and half year)

2. Diluted (Not annualised for the guarter and half year)

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or

(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income

Extraordinary items)

Extraordinary items)

(after tax)]

12 Debt Equity Ratio

Notes:

No.

Rivaara has developed PCRbased test kits, specifically for detecting pathogens prevalent in India, in collaboration with European research labs.

Daftary said, "The vision for Rivaara is to positively impact patient care by addressing gaps in widespread adoption of molecular diagnostics... Amicus and Kotak have an indepth understanding of the healthcare sector and are aligned with our vision..."

Sunil Theckath Vasudevan,

Consolidated

30.09.2022

50,858.38

30,889.51

30,889.51

24,214.82

24,214.00

9,959.86

3,07,521.86

1,73,581.04

3,17,481.72

3,74,001.21

1.18

4.87

4.85

Standalone

30.09.2022

42,974.00

26,368.11

26,368.11

20,871.57

20,870.75

9,959.86

2,89,151.92

1,73,581.04

2,99,111.78

3,35,738.76

1.12

4.20

4.18

Half year ended

Half year ended

30.09.2021

37,876.73

20,453.54

20,453.54

15,879.73

15,873.34

9,911.61

2,60,345.54

1,71,859.10

2,70,257.15

2,40,044.15

0.89

3.28

30.09.2021

31,386.54

16,493.80

16,493.80

12,927.28

12,920.89

9,911.61

2,48,557.55

1,71,859.10

2,58,469.16

2,12,647.79

0.82

2.67

2.64

ΛPTUS™

Aptus Value Housing Finance India Limited

Registered Office and Corporate Office: 8B, 8th Floor, Doshi Towers, 205, Poonamallee High Road, Kilpauk, Chennai - 600 010. Tel: +91 44 4565 0000

Statement of Unaudited Consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022

30.09.2022

26,823.97

15,659.16

15,659.16

12,330.67

12,330.55

9,959.86

3,07,521.86

1,73,581.04

3,17,481.72

3,74,001.21

1.18

2.48

2.47

1. The above statement of unaudited consolidated results has been reviewed by the Audit Committee on November 07, 2022 and approved by the Board of Directors on

Statement of Unaudited Standalone financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022

30.09.2022

22,771.50

13,413.11

13,413.11

10,678.61

10,678.49

9,959.86

2,89,151.92

1,73,581.04

2,99,111.78

3,35,738.76

1.12

2.15

2.14

1. The above is an extract of the detailed format of financial results filed for the quarter and half year ended September 30, 2022 which had been reviewed by the Audit Committee on November 07, 2022 and approved by the Board of Directors on November 08, 2022 and subjected to a limited review by the Statutory auditors for the quarter and half year ended

September 30, 2022 and filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company (www.aptusindia.com), BSE limited (www.bseindia.com), and National Stock

The financial statements have been prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

Quarter ended

2. The financial statements have been prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

November 08, 2022 and subjected to limited review by the Statutory auditors for the guarter and half year ended September 30, 2022.

Quarter ended

30.09.2021

19.674.15

10,939.01

10,939.01

8,525.90

8,522.32

9,911.61

2.60,345.54

1,71,859.10

2,70,257.15

2,40,044.15

0.89

1.75

1.73

30.09.2021

16,347.57

8,780.97

8,780.97

6,913.79

6,910.21

9,911.61

2,48,557.55

1,71,859.10

2,58,469.16

2,12,647.79

0.82

1.42

1.40

co-founder and partner, Amicus Capital, said, "We are very excited to partner with Rivaara's journey to bring faster and accu rate diagnostics to India."

Dhiraj Rajendran, ED, Kota<mark>k</mark> Investment Advisors, said, "Adv ances in molecular diagnostics over the last few years have ope ned up possibilities for faster and accurate ways to detect pathogens at an affordable price. Adoption of these advances like RT-PCR tests was seen during the pandemic period.

(INR In lakhs)

Year ended

31.03.2022

81,468.37

48,001.59

48,001.59

37,014.01

37,011.20

9,938.36

2,81,677.89

1,72,126.46

2,91,616.25

2,72,842.83

0.94

7.58

7.53

(INR In lakhs)

Year ended

31.03.2022

67,896.83

39,638.44

39,638.44

30,822.86

30,820.05

9,938.36

2,66,651.20

1,72,126.46

2,76,589.56

2,34,672.12

0.85

6.28

6.25



RUCHIRA PAPERS LIMITED

Regd. Office: Tirlokpur Road, Kala Amb, District-Sirmaur-H.P-173030 Website: www.ruchirapapers.com,

Email: cs@ruchirapapers.com, investor@ruchirapapers.com CIN: L21012HP1980PLC004336

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2022

Rs.(In Lakhs) except Earning per Share

| S.No | Particulars | Qu | arter End | Audited Un-Audited Un-Audited Un-Audited 16.76 14838.88 42065.97 27428.60 6 | | | |
|------|--|------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.03.2022 |
| | | Un-Audited | Un-Audited | Un-Audited | Un-Audited | Un-Audited | Audited |
| 1 | Total Income from Operations (net) | 22149.21 | 19916.76 | 14838.88 | 42065.97 | 27428.60 | 61429.64 |
| 2 | Net Profit for the period (before tax and exceptional items) | 2663.53 | 1565.01 | 882.59 | 4228.54 | 1490.08 | 4453.61 |
| 3 | Net Profit for the period (before tax after exceptional items) | 2663.53 | 1565.01 | 882.59 | 4228.54 | 1490.08 | 4453.61 |
| 4 | Net Profit for the period (after tax after exceptional items) | 1989.01 | 1163.43 | 660.31 | 3152.44 | 1112.10 | 3309.36 |
| 5 | Total comprehensive income for the period | 1949.34 | 1160.76 | 592.44 | 3110.10 | 1064.24 | 3298.75 |
| 6 | Paid up Equity Share Capital | 2713.18 | 2615.68 | 2425.18 | 2713.18 | 2425.18 | 2520.43 |
| 7 | Other Equity (as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year | 19 | 1 | 3 | | | 28438.61 |
| 8 | Earnings per share (of Rs. 10/- each) Not annualised | | | | | | |
| | (a) Basic | 7.33 | 4.45 | 2.73 | 11.62 | 4.59 | 13.13 |
| | (b) Diluted | 7.33 | 4.37 | 2.64 | 11.62 | 4,47 | 12.89 |

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchange websites, at a link (http://www.bseindia.com/#corporates) and (https://www.nseindia.com/corporates) and on the Company's website at www.ruchirapapers.com

Place: Kala Amb Date: 08.11.2022 For and on behalf of Board of Directors Umesh Chander Garg

Managing Director

(₹ in Lakhs)

HCP PLASTENE BULKPACK LIMITED (Formerly Known as Gopala Polyplast Limited)

CIN: L25200GJ1984PLC050560

Registered Office: H.B. Jirawala House, Navbharat Soc., Nr. Panchshil Bus Stand, Usmanpura Ahmedabad • Website: www.gopalapolyplast.com EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

For Quarter Ended Half Year Ended For the Year Ended **Particulars** 30-Jun-22 30-Sep-21 30-Sep-22 31-Mar-22 30-Sep-22 30-Sep-21 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 9,390.13 11,289.74 1,065.07 20,679.87 11,284.37 2,187.67 Revenue from operations Net Profit / (Loss) for the period before Tax, 31.32 317.92 (242.36)349.24 (513.35)(315.91)Exceptional and/or Extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period before Tax 317.92 349.24 (513.35)(315.91)31.32 (242.36)after Exceptional and/or Extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period after tax 12.86 212.94 (188.17)225.81 (437.69)(244.95)after Exceptional and/or Extraordinary items Total Comprehensive Income for the period 1,067.48 Equity Share Capital (Face Value Rs 10/- each) 1,067.48 1.023.38 1.067.48 1,023.38 1,023.38 NA NA NA NA NA NA Other Equity Earnings Per Share (after extraordinary items) (Face value of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations) 0.12 2.39 2.54 (4.28)(2.39)a) Basic (1.84)b) Diluted 0.12 2.39 2.54 (1.84)(4.28)(2.39)

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

| Particulars | Fo | or Quarter Ended | d | Half Year E | For the Year Ended | | |
|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|--|
| | 30-Sep-22 | 30-Jun-22 | 30-Sep-21 | 30-Sep-22 | 30-Sep-21 | 31-Mar-22 | |
| | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) | |
| Revenue from operations | 1,336.33 | 1,025.34 | 1,122.60 | 2,361.67 | 2,187.67 | 4,949.07 | |
| Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items | (305.35) | (191.79) | (271.00) | (497.14) | (513.35) | (488.26) | |
| Net Profit / (Loss) for the period before Tax after Exceptional and/or Extraordinary items | (305.35) | (191.79) | (271.00) | (497.14) | (513.35) | (488.26) | |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary items | (232.41) | (142.39) | (249.53) | (374.80) | (437.69) | (367.73) | |
| Total Comprehensive Income for the period | - | () | 0 2 | | | 12.0 | |
| Equity Share Capital (Face Value Rs 10/- each) | 1,067.48 | 1,067.48 | 1,023.38 | 1,067.48 | 1,023.38 | 1,023.38 | |
| Other Equity | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Earnings Per Share (after extraordinary items) (Face value of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) | 28240000001 | 3.22 | 92.73 | | 71.42 | 0,202.0 | |
| a) Basic | (2.18) | (1.47) | (2.44) | (3.83) | (4.28) | (3.59) | |
| b) Diluted | (2.18) | (1.47) | (2.44) | (3.83) | (4.28) | (3.59) | |

Notes:

 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended 30th September 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Reg., 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and

also on the website of Company at www.hpbl.in The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their meeting held on 08" November, 2022.

For HCP Plastene Bulkpack Limited

(Formerly Known as Gopala Polyplast Limited) Sd/- Anil Shyamsunder Goyal Chairman DIN:03071035

Chandigarh

financialexp.ep.p.in

Date : November 08, 2022

visit us at www.aptusindia.com

Amounts for the comparative periods presented have been reclassified / regrouped, wherever necessary.

M Anandan Chairman & Managing Director

CONCEP

On behalf of the Board of Directors

Date: 08" November, 2022

Place : Ahmedabad

मोसम

न्युनतम- १४.० सूर्यास्त- ०५:२१ जनसता १ नवंबर,

आनंद कारज एक्ट लागू किया जाएगाः भगवंत मान

श्रीगुरु नानक देवजी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने तखत श्रीकेसगढ़

साहिब में टेका मत्था पंजाब में शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए अरदास की

श्रीआनंदपुर साहिब, ८ नवंबर (जनसत्ता)।

श्रीगुरू नानक देवजी के प्रकाश पर्व के सुअवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मंगलवार तखत श्री केसगढ साहिब में मत्था टेका और 'आनंद कारज एक्ट' को यथावत लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्ट को 2016 में अधिसूचित किया गया था पर तब से यह लटकता आ रहा है।

उन्होंने कहा कि भले ही कई अन्य राज्य पहले ही इस एक्ट अपने यहां लागु कर चुके हों पर पंजाब इस मामले में पिछड़ गया। मान ने कहा कि इस एक्ट को अब सही मायनों में लागू कर दिया जाएगा।

पंजाब/हरियाणा 🔨

मुख्यमंत्री तखत श्री केसगढ साहिब में नतमस्तक हुए और उन्होंने अरदास की कि राज्य में सांप्रदायिक सांझ, शांति और भाईचारे की भावनाएं हर गुज़रते दिन के साथ ज्यादा मजबूत होती जाएं और पंजाब हर क्षेत्र में देश का अगुवा बने। प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर संगत को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि श्रीगुरु नानक देवजी एक महान आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने मानवता को परमात्मा की भिक्त द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता दिखाया।

भगवंत मान ने कहा कि गुरूजी की 'किरत करो, नाम जपो और वंड छको' की शाश्वत शिक्षा आधुनिक पदार्थवादी समाज में भी प्रासंगिक हैं। श्रीगुरू नानक देवजी ने जात पात रहित समाज की कल्पना की थी ताकि दुखी मानवता को सभी तरह के दुख तकलीफ़ों से मुक्त कराया जा सके। श्रीगुरू नानक देवजी ने मानवता को नए विचारों, आदर्शों और जिज्ञासाओं के साथ प्रेरित किया और पाखंड, झूठ, फ़रेब और जात-पात जैसी बुराईयों से छुटकारा पाने को प्रेरित किया। भगवंत मान ने लोगों से गुहार लगाई कि वह गुरूजी द्वारा दिखाई सेवा और नम्रता की भावना को अपनाएं और उनकी अनमोल विरासत के सन्मार्ग पर चलते हुए शांतमयी, खुशहाल और स्वस्थ समाज की सर्जना के लिए तन-मन से प्रयत्न करें।

मुख्यमंत्री ने लोगों को इस सुअवसर पर जाति, रंग, नस्ल और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर पूरी श्रद्धा और लगन के साथ यह पर्व मनाने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी 'उदासियों' के कारण विश्वभर में

जगत गुरु के तौर पर सम्मानित श्रीगुरू नानक देवजी ने सांप्रदायिक सांझ और भाईचारक जड़ों को मजबूत करने का प्रचार किया। मान ने कहा कि श्रीगुरू नानक देवजी ने अपनी शिक्षाओं द्वारा मुगल बादशाह बाबर के हमले के समय जुल्म, अन्याय और अत्याचार का डटकर विरोध किया।

गुरबानी की तुक 'पवन गुरू पानी पिता,

माता धरित महतु' का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूजी ने हवा को गुरू, पानी को पिता और धरती की माता के साथ तुलना की है। मान ने कहा कि गुरूजी की दूरदर्शी सोच का पता इन बातों से लगता है कि उन्होंने उस समय लोगों को वातावरण की साज-संभाल का उपदेश दिया था. जब वायु प्रदुषण कहीं था भी नहीं। श्रीगुरु नानक देवजी महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ समाज में महिलाओं को समान दर्जा दिए जाने के सच्चे पैरोकार थे।

सड़क दुर्घटना में युवक-युवती की मौत

एक बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना में युवक-युवती सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवती हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई। यह सभी लोग एसयूवी थार वाहन में सवार थे और तीनों एक-साथ काम करते थे। यह जानलेवा सड़क हादसा बीती रात करीब 12.30 बजे चंडीगढ़-फगवाड़ा हाईवे पर गांव खंगूड़ा के समीप हुआ। दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान सेक्टर-27, चंडीगढ़ के रहने वाले अर्श शर्मा (25) और श्रीआनंदपुर साहिब में पड़ते गांव ननोवाल वासी शिवानी राणा (23) के रूप में हुई। इनमें अर्श शर्मा चंडीगढ़ से प्रकाशित होने वाले पंजाबी दैनिक में सीनियर स्टाफ रिपोर्टर देविंदर पाल के पुत्र थे जबिक इसी हादसे में मोहाली वासी 22 वर्षीय चेतना बेहद गंभीरावस्था में लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उपचाराधीन हैं।

बताया जाता है कि अचानक सड़क पर एक लावारिस मवेशी के आ जाने से यह दुर्घटना हुई जिसमें अर्श शर्मा अपनी थार पर नियंत्रण नहीं रख पाए और वाहन सड़क पर डिवाइडर से टकराते हुए हाईवे के

दूसरी ओर पलटकर घिसटता चला गया। दुर्घटना की भीषणता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हादसे में थार वाहन के इस कदर परखचे उड गए कि उसमें फंसे अर्श शर्मा और शिवानी के शव बड़ी मशक्कत के बाद ही निकाले जा सके थे।

फगवाडा के डीएसपी जसप्रीत सिंह का कहना है कि थार चालक अर्श शर्मा के दोस्त दुष्यंत वर्मा एक अन्य कार में इन लोगों के पीछे-पीछे आ रहे थे और उन्होंने पुलिस को बताया कि वह लोग चंडीगढ से फगवाड़ा के समीप 'हवेली' नामक ढाबे पर रात का खाना खाने के लिए निकले थे। डीएसपी ने बताया कि हादसे के एक चश्मदीद के मुताबिक, उस समय सड़क पर अचानक एक आवारा पशु आ गया था और थार चालक अपने वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उनका वाहन सड़क पर पलटियां खाता रहा

हादसे के बाद अर्श शर्मा, शिवानी और चेतना को अस्पताल में भर्ती कराने लेकर जाया गया तो वहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया जबिक चेतना को घायलावस्था में तत्काल लुधियाना अस्पताल रेफर करना पड़ा। पोस्टमार्टम के उपरांत दोनों शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

भाजपा में अपना रुतबा बनाएंगे कुलदीप!

अंबाला, ८ नवंबर (जनसत्ता)।

कांग्रेस में रहते कुलदीप बिश्नोई की गिनती प्रदेश कांग्रेस के पहली पंक्ति के नेताओं में होती रही और वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद के साथ-साथ मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार भी माने जाते रहे। माना जा रहा है कि अब भव्य बिश्नोई के आदमपुर उप चुनाव जीतने के बाद कुलदीप का भाजपा में कद बढ़ेगा और वह प्रदेश भाजपा की पहली कतार के नेताओं में शुमार होते नजर आएंगे।

भव्य की जीत का सारा श्रेय कुलदीप में खाते में नहीं जाता और उनका असल इम्तिहान तो अभी 2024 में राजस्थान की बिश्नोई बाहल्य सीटों पर होना है। भव्य की यह जीत केवल इसलिए नहीं हुई कि वह भजन लाल परिवार से आते हैं बिल्क उनकी जीत में हरियाणा भाजपा की भी बडी भूमिका रही है जिसके पास अपना मजबूत काडर और बुथ स्तरीय मजबृत संगठन है।

दरअसल भाजपा कुलदीप को एक बिश्नोई नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती है ताकि वर्ष 2024 के चुनावों में हरियाणा के हिसार और राजस्थान के बिश्नोई बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में उनका फायदा उठाया जा सके सके। वैसे भी राजस्थान के बिश्नोई समाज में भजन लाल परिवार की अच्छी पैठ रही है।

एसजीपीसी अध्यक्ष के चुनाव से पहले 'चढ़दीकलां' में जागीर कौर

बुधवार को मतदान से पहले एसजीपीसी सदस्यों को उनके जमीर की आवाज पर ही फैसला लेने की गुहार

लुधियाना, ८ नवंबर (जनसत्ता)।

एसजीपीसी अध्यक्ष के चुनाव के लिए कल बुधवार होने वाले मतदान से पूर्व आज मंगलवार एसजीपीसी की ही पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने कहा कि वह 'चढदीकलां' में हैं यानी शिरोमणि अकाली दल- शिअद से बीते कल सोमवार को उनकी बर्खास्तगी के बावजूद एसजीपीसी अध्यक्ष पद पर चुनाव लडने का उनका जोश-ए-जुनून कायम है। बता दें कि बीबी जागीर कौर को बीते कल दोपहरबाद तब शिअद की अनुशासन समिति द्वारा उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन बीबी जागीर कौर का साफ कहना है, 'मेरी सभी एसजीपीसी सदस्यों से अपील है कि वह अपने 'जमीर' की आवाज सुनकर ही अपना वोट डालें। मुझे पक्का यकीन है कि इस बार इन एसजीपीसी सदस्यों द्वारा इतिहास लिखा जाएगा जो सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था को राजनीति से

अलग देखना चाहते हैं।' पंजाब के जिला कपूरथला स्थित अपने विधानसभा हलका भुलत्थ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान सभी एसजीपीसी सदस्यों से मुलाकात के बाद मझे लगता है कि वह मेरे पक्ष में मतदान करने को आतुर हैं। और यही वजह है कि मझे शिअद से बर्खास्त करने का फैसला भ्रमित होकर लिया गया है। जो भी हो, मैं एक बार फिर चाहती हं कि जब पार्टी का पुरा संगठनात्मक ढांचा ही निरस्त हो चुका है तो ऐसे में मेरे पार्टी से निष्कासन को जायज कौन ठहराएगा? यह पूरी तरह असंवैधानिक है। मैं भी अकाल दल को खड़ा करने वाले नेताओं में हुं और मैंने स्वयं दिनरात मेहनत कर इसे प्रफुल्लित किया और सींचा। मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं। उलटे मुझे इस बात का फख़ है कि मैं जनता की सेवा कर पाई और भविष्य में ऐसा ही करती रहंगी।'

RUCHIRA

(a) Basic

उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी जब किसी ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई तो सच को दबा दिया गया।' और तो और, बीबी जागीर कौर ने यहां तक आरोप लगाया कि शिअद नेतृत्व द्वारा एसजीपीसी सदस्यों को किसी गप्त ठिकाने पर ले जाकर छिपा दिया गया है और उन्हें आज गुरुपर्ब का जश्न

मनाने तक की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि कल उनके पक्ष में पड़ने वाली वोटें बढ़ या घट सकती हैं। लेकिन वह शांतचित्त व स्थिर हैं और उन्हें गुरूजी की प्रार्थनाओं पर पूरा यकीन है। उन्होंने कहा कि शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को चाहिए कि वह चंद मुद्रीभर लोगों की बातों पर आंखें मूंदकर यकीन करने के बजाय अपने विवेक से काम लें तो अधिक बेहतर होगा। उन्होंने कहा, प्रधानजी यानी सुखबीर बादल ने कभी मुझ से सीधे संपर्क नहीं किया, उलटे वह मुझे अन्य लोगों के मार्फत एसजीपीसी का चुनाव नहीं लड़ने के संदेश भिजवाते रहे।

इस बीच बता दें कि एसजीपीसी का गठन सन 1920 में हुआ था और इस तरह सिखों की 102 साल पुरानी संस्था का

RUCHIRA PAPERS LIMITED

ढींडसा भी समर्थन में उतरे

शिअद- संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा आज मंगलवार अमृतसर में ही थे और उन्होंने बताया, 'मैं पूरी तरह बीबी जागीर कौर के साथ हूं और मेरी सभी एसजीपीसी सदस्यों से गुहार है कि वह कल बुधवार एसजीपीसी के अध्यक्ष पद पर वोट देते समय अपने जमीन की सुनें। उन्हें यह भी सोचना होगा कि पंथ को बादलों के चंगूल से कैसे बचाया जाए। देखना होगा कि धर्म को राजनीति से ऊपर रखा जाए या फिर उसके विपरीत। इसलिए पंथ को बचाने का समय आ गया है।'

गठन समस्त गुरुद्वारों में बेहतर प्रबंधन की मंशा से ही किया गया था।

स्मरणीय है कि सिख गुरुद्वारा एकट 1925 के मुताबिक, एसजीपीसी की कार्यकारिणी इंकाई, उसके अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव हर साल होना निर्धारित है। जब से गुरुद्वारा एक्ट का गठन हुआ है तब से बीते सालों से लेकर अब तक 39 अध्यक्ष पदभार संभालते आए हैं और कल बुधवार को होने वाला चुनाव भी एसजीपीसी के अध्यक्ष का 40वां चुनाव होगा।

शिक्षक की गिरफ्तारी के विरोध में शिक्षक संघ का आज धरना प्रदर्शन

चंडीगढ़: शहर के सरकारी स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक पर सातवीं की छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब इस गिरफ्तारी के विरोध में स्कूल शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बारे में उनका कहना है कि छात्रा के आरोप मात्र पर ही पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर अगले रोज अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया लेकिन शिक्षक को उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह छात्रा के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत सीधे थाने में दर्ज करा दी थी और शिक्षक

को तुरंत गिरफ्तार कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण ज्वेल गारमेंटस प्राइवेट लिमिटेड जिला फरीदाबाद. हरियाणा भारत में कपडा उत्पादों के निर्माण में काम कर रहा है

(दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया)

विनियमों, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन)

संबंधित विवरण

ज्वेल गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड U17291HR2007PTC037361 प्लॉट नंबर 29 डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- I फरीदाबाद, हरियाणा- 121003 कोई अचल संपत्तियां नहीं है उपलब्ध वित्तीय विवरण irpjewelgarments@gmail.com पर ईमेल द्वार (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया प्रस्ताव पेशेवर से मांगा जा सकता है के बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं: कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव irpjewelgarments@gmail.com पर ईमेल द्वार अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि 23.11.2022 प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची 03.12.2022 जारी करने की तिथि अनंतिम सुची पर आपत्तियों के प्रस्तृतिकरण की 08.12.2022 आरपी द्वारा प्रस्ताव आवेदक की अंतिम सूची ईओआई प्रस्तृत करने की प्रक्रिया ईमेल आईडी irpjewelgarments@gmail.com

जरामू राम ठाकुर अंतरिम प्रस्ताव पेशेव ईमेल आईडी: irpjewelgarments@gmail.com पता- तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर डी-190, इंडस्ट्रियल एरिया,

तिथि: 08.11.2022 स्थानः मोहाली

पंजी सं. IBBI/IPA-001/IP-P01869/2019-2020/12933 फेज 8बी, सेक्टर 74, एसएएस नगर मोहाली 160071, पंजाब मोबाईलः +919888344644

चडागढ़ का हवा 'खराब'

चंडीगढ़, ८ नवंबर (जनसत्ता)।

चंडीगढ़ में वायु की गुणवत्ता का स्तर यानी 'एआइआर' क्वलिटी इंडेक्स बीते दो दिनों से 'खराब' श्रेणी के दायरे में आ गया है। दरअसल, ऐसी खराब आबो हवा की परिभाषा अधिकतर लोगों को खुली हवा में सांस लेने में होने वाली तकलीफ से संदर्भित होती है।

सूत्रों ने इस बाबत दी जानकारी में आगे बताया, 'चूंकि आज सूरज तो निकला ही नहीं और न ही आने वाले कुछ दिनों में इसके निकलने के आसार ही नजर आते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में एक्युआइ का स्तर और खराब होता नजर आ रहा है।' वैसे सबसे खराब आबो हवा स्थानीय सेक्टर-53 की रही, वह भी ऐसे सेक्टर में जहां मौजदा एक्युआइ का स्तर जांचने के लिए एक 'कांटीन्युअस एंबियंट एयर क्वलिटी मानिटरिंग स्टेशन' यानी सीएएक्यूएमएस लगाया गया है। इस सेक्टर में आज मंगलवार एक्युआइ का स्तर 209 आंका गया। वैसे ऐसे दो अन्य 'कांटीन्युअस एंबियंट एयर क्वलिटी मानिटरिंग स्टेशन' यानी सीएएक्यूएमएस स्थानीय सेक्टर-22 और सेक्टर-25 में भी लगाए

ताजपुर धरोहर कचरा स्थल

का निपटान संयंत्र शुरू

चंडीगढ़/लुधियाना, ८ नवंबर (जनसत्ता)

पंजाब सरकार में स्थानीय

निकाय मंत्री डा. इंदरबीर सिंह निज्जर

ने आज मंगलवार ताजपर मार्ग कचरा

स्थल पर विरासती अवशेष के

'बायोरेमेडिएशन प्लांट' परियोजना

का शुभारंभ किया जो अगले 22

महीनों में अपने पहले चरण के

अधीन वहां पांच लाख टन विरासती

अवशेष का निपटान सुनिश्चित करेगा।

रुपए की लागत आएगी. जिसे

'लुधियाना स्मार्ट सिटी मिशन' के

तहत चलाया जा रहा है। स्थल

पर करीब 25 लाख मीट्रिक टन

विरासती कुडा है। कचरा स्थल

परियोजना पर 27.17 करोड

देबेंद्र दलाई- आइएफएस

एक्यूआइ का स्तर खराब होता है।'

सबसे खराब सेक्टर-53 में रही और आने वाले दिनों में एक्युआइ का स्तर ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है

गए हैं जहां आज मंगलवार एक्यूआइ का स्तर क्रमशः 242 और 171 आंका गया।

निदेशक पर्यावरण विभाग का कहना है, 'एक्युआइ का स्तर संबंधित क्षेत्र के हालात पर भी निर्भर करता है। पड़ोसी प्रांतों के खेत-खलिहानों में पराली जलाने की घटनाएं भी एक कारण हैं। ऊपर से यदि सूरज नहीं निकले तो भी

इस बीच, मौसम विभग ने अगले दो दिनों के लिए आसमां में बादल छाए रहने और गरज के साथ हलकी-फुलकी बरसात का पूर्वानुमान जताया है। विभाग का कहना है कि आगामी 11 नवंबर से आसमां साफ हो जाएगा। आज मंगलवार यहां चंडीगढ में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस और न्युनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Regd. Office: Tirlokpur Road, Kala Amb, District-Sirmaur-H.P-173030 **PAPERS** Website: www.ruchirapapers.com, Email: cs@ruchirapapers.com, investor@ruchirapapers.com CIN: L21012HP1980PLC004336

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 Rs.(In Lakhs) except Earning per Share

Quarter Ended Particulars Half Year Ended | Year Ended 30.09.2022 30.09.202 30.06.2022 31.03.2022 Un-Audited **Un-Audit Un-Audite** Un-Audite Audited 22149.21 Total Income from Operations (net) 19916.76 27428.60 61429.64 1565.01 882.59 4228.54 1490.08 4453.61 Vet Profit for the period (before tax and exceptional items 2663.53 1565.01 882.59 4228.54 1490.08 4453.61 Net Profit for the period (before tax after exceptional items 2663.53 660.31 3152.44 1112.10 3309.36 Net Profit for the period (after tax after exceptional items 1989.01 1163.43 592.44 Total comprehensive income for the period 1949.34 1160.76 3110.10 1064.24 3298.75 2615.68 2425.18 2425.18 2520.43 Paid up Equity Share Capital 2713.18 2713.18 Other Equity (as shown in the Audited Balance Sheet 28438.61 Earnings per share (of Rs. 10/- each) Not annualised

(b) Diluted The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchange websites, at a link (http://www.bseindia.com/#corporates) and (https://www.nseindia.com/corporates) and on the Company's website at www.ruchirapapers.com

7.33

4.45

4.37

2.73

For and on behalf of Board of Directors Umesh Chander Garg Managing Director

11.62

4.59

13.13

12.89

Place: Kala Amb Date: 08.11.2022

Ind-Swift

Ind-Swift Laboratories Ltd.

Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh - 160 101 CIN L24232CH1995PLC015553

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH, SEPT 2022 (F in Lacs) STANDALONE CONSOLIDATED Quarter Quarter Half Year Half Year Year Quarter Quarter Half Year Half Year Year **PARTICULARS**

| | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2021 | Sept. 2022 | Sept. 2021 | 31.03.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2021 | Sept. 2022 | Sept. 2021 | 31.03.2022 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | UnAudited | UnAudited | UnAudited | | UnAudited | Audited | UnAudited | UnAudited | UnAudited | UnAudited | UnAudited | Audited |
| Total Income | 29509.33 | 27891.21 | 23727.38 | 57400.54 | 48569.16 | 103058.69 | 31775.53 | 28755.82 | 24278.98 | 60531.36 | 49854.20 | 108222.91 |
| Profit(loss) before exceptional Items and Tax | 2402.30 | 2013.86 | 2385.31 | 4416.16 | 4268.25 | 968.79 | 2590.66 | 2014.03 | 2510.21 | 4604.68 | 4411.96 | 1253.24 |
| Profit(loss) before Tax (After exceptional items) | 2402.30 | 2013.86 | 2385.31 | 4416.16 | 4268.25 | 799.55 | 2590.66 | 2014.03 | 2510.21 | 4604.68 | 4411.96 | 1253.24 |
| Profit (+)/ Loss (-) for the period from continuing operations | 2402.30 | 2013.86 | 2385.31 | 4416.16 | 4260.48 | (570.92) | 2534.30 | 1987.93 | 2447.05 | 4522.23 | 4327.47 | (214.90) |
| Net Profit /(Loss) for the period (after tax & Exceptional items) | 2402.30 | 2013.86 | 2385.31 | 4416.16 | 4260.48 | (570.92) | 2534.30 | 1987.93 | 2447.05 | 4522.23 | 4327.47 | (214.90) |
| Total Comprehensive Income for the Period | 2402.30 | 2013.86 | 2385.31 | 4416.16 | 4260.48 | (613.46) | 2534.30 | 1987.93 | 2447.05 | 4522.23 | 4327.47 | (257.44) |
| Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per Share) | 5908.69 | 5908.69 | 5908.69 | 5908.69 | 5908.69 | 5908.69 | 5908.69 | 5908.69 | 5908.69 | 5908.69 | 5908.69 | 5908.69 |
| Reserves excluding revaluation reserves | | | | | | 37625.85 | | | | | | 34467.44 |
| EPS (of Rs. 10/- each) (Not annualised) (In Rs.) | | | | | | | | | | | | |
| Basic | 4.07 | 3.41 | 4.04 | 7.47 | 7.21 | -0.97 | 4.29 | 3.36 | 4.14 | 7.65 | 7.32 | (0.36) |
| Diluted | 4.07 | 3.41 | 4.04 | 7.47 | 7.21 | -0.97 | 4.29 | 3.36 | 4.14 | 7.65 | 7.32 | (0.36) |

Note- (1) The above un-audited standalone & Consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022 of Ind-Swift Laboratories Limited (the Company) have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on November 08, 2022 (2) The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated unaudited financial results for the Quarter and half year ended September 30, 2022 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022 are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.indswiftlabs.com. For Ind-Swift Laboratories Limited

Place: Chandigarh

N R Munjal Chairman and Managing Director

ANNEXURE 51 (CHAPTER 5, PARA 5.16.5) FORMATS C-1 TO C-3 FORMAT C-1 (for candidate to publish in Newspapers, TV) Declaration about Criminal Cases (As per the judgment dated 25% September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.) Name and Address of Candidate: Shri Sokhvinder Singh Son of Late Shri Rashil Singh Resident of Village Bhabran, Post Office Kitpal, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh Name of Political Party: INDIAN NATIONAL CONGRESS Party Legislative Assembly 40- Nadaun, H.P. CONSTITUENCY I, Sukhvinder Singh, a candidate for the abovementioned Election, declare for public information the following details about my criminal antecedents: Pending Criminal Cases about cases on conviction Name of Case No. and Section(s) of Status of concerned and brief Court of offence(v) description of offence(x) date(s) Inseequi JMIC No. 96/2020 U.S.143 & 188 Shimla-4 Status is IPC Applicable Applicable Consideration As per my knowledge the since the since the case on charge above mentioned criminal case is is pending. cases have been pending registered against me alleging me to be a member of unlawful assembly and abstained and causing obstruction, annoyance against order promulgated by a public officer and wrongfully restrained and acting so rushly and negligently so as to endanger human lives and personal safety of other by doing the protest against the Government at Shimla, I further state that these have cases has been registered falsely. CIM U/S 143,188,341 IPC Applicable 364/2019 and 336 Applicable is Description is same as since the since Status Consideration given for Case No. 1 case th case on charge above No.110/2021 U/S 143, 188 IPC Not CJM Not Applicable Shimla is Description is same as Applicable since the case

Consideration given for Case No. 1 since

Description: So far as case

by the Police and now

the cancellation report has been filed by the Police

Authority Nadaun and same is pending disposal

before ACJM Nadaun HP

146/2021Basant Singh

Versus State of HP ACIM

this case was investigated pending

above

Cr.MA. No. U/S 177,181,182 IPC

CrMA

Nadaun, HP.

Status : for People Act.

on charge

146/2021

Nadaun.

HP

Place: Nadaun HP

Dated: 27th October, 2022

the is pending

Sukhvinder Singh

since the since the case

C26852

33,125-A, 10 Rep. Of Applicable Applicable

pending

Chandigarh

पर जमा विरासती अवशेष की निपटान प्रक्रिया दो चरणों में 'बायोरेमेडिएशन' प्रक्रिया से मुकम्मल होगी जिसमें पहले चरण का जिम्मा सागर मोटर्स को सौंपा गया है जो 'ज़ीरो

लेंडफिल' से वहां रोज 1,440

टन कुड़ा-कचरा साफ करेगी।